



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072023-247032
CG-DL-E-05072023-247032

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 384]
No. 384]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 4, 2023/आषाढ़ 13, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 4, 2023/ASHADHA 13, 1945

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 477(अ).—खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम, 1969 (1969 की संख्या 43) की धारा 28 की उप-धारा (2) के अनुच्छेद (ड.) के साथ पठित धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी सेवा विनियम, 1986 के अधिक्रमण में उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना में निदेशक के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इस विनियम का नाम संस्कृति मंत्रालय, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना, निदेशक, भर्ती विनियम, 2023 होगा।
(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल** - उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा तत्संबंधी वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि** : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह या संविदागत विवाह किया है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह या संविदागत विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

6. व्यावृत्ति:- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
निदेशक	01* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं।

वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद या अचयन पद
(4)	(5)
लेवल-14, (144200-218200 रु.)	लागू नहीं।

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
लागू नहीं।	लागू नहीं।

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत कर्मचारियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)
लागू नहीं।	लागू नहीं।

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा होगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
<p>तीन वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर (अल्पकालिक संविदा सहित) या इसे संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन से खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी बोर्ड द्वारा सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।</p>	<p>निम्नलिखित में से प्रतिनियुक्ति : (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित सांविधिक या स्वायत्त संगठनों, विश्वविद्यालयों और मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के वे अधिकारी :-</p> <p>(क)</p> <p>(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-13 क (131100-216600 रुपये) में या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-13 (123100-215900 रुपये) में या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात् :</p> <p>(क) अनिवार्य अर्हता :</p> <p>(i) अरबी या फारसी या उर्दू/हिन्दी या संस्कृत/इस्लामी अध्ययन/मध्यकालीन भारतीय इतिहास में प्रख्यात विद्वान;</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से उपर्युक्त क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री;</p> <p>(iii) कम से कम 05 पुस्तकें/10 शोध पत्र आदि प्रकाशित हो चुके हों;</p> <p>(iv) किसी तुलनात्मक पुस्तकालय, विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षण/शोध संस्था में अध्यापन या शोध या प्रशासन कार्य में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव;</p> <p>(ख) वांछनीय अर्हता :</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, कम्प्यूटर साइंस, डाटा प्रोसेसिंग आदि में डिग्री या डिप्लोमा;</p> <p>(ii) उपरोक्त अनिवार्य अर्हताओं के अंतर्गत उल्लिखितानुसार विषयों में से किसी भी विषय में पीएचडी की डिग्री।</p> <p>टिप्पण:-</p> <p>(i) प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए आयु सीमा छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>(ii) आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की सामान्य अंतिम तारीख होगी।</p>

	<p>(iii) पदधारी द्वारा निदेशक, खुदा बख्श ओरिएण्टल पब्लिक लाइब्रेरी के पद को धारण करने हेतु अधिकतम अनुमत्य आयु 60 वर्ष होगी।</p> <p>(iv) इस अर्हता या अनुभव में चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर छूट दी जा सकती है।</p> <p>(v) इसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः सात वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p>चयन समिति:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बोर्ड के अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उनका नामिति; 2. भारत सरकार का एक नामिति; 3. बिहार सरकार का एक नामिति; 4. बोर्ड के सदस्यों में से नामित एक सदस्य; 5. बोर्ड द्वारा नामित एक विषय विशेषज्ञ; और 6. निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में पुस्तकालय के उप निदेशक। 	लागू नहीं।

[फा. सं. एल-19/1/2023- पुस्तकालय]

मुग्धा सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th July, 2023

G.S.R. 477(E).—In exercise of the powers conferred by section 12 read with clause (e) of sub-section (2) of section 28 of the Khuda Bakhsh Oriental Public Library Act, 1969 (No. 43 of 1969) and in supersession of the Khuda Bakhsh Oriental Public Library Service Regulations, 1986, in so far as they relate to the post of Director, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Khuda Bakhsh Oriental Public Library Board with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the post of Director in the Khuda Bakhsh Oriental Public Library, Patna, namely : —

1. **Short title and commencement.** — (1) This regulation may be called the Ministry of Culture, Khuda Bakhsh Oriental Public Library, Patna, Director, Recruitment Regulation, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication of the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in the pay matrix.** — The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulation.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** — The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.** — No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, be order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulation with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Post.	Classification.
(1)	(2)	(3)
Director.	01* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	Not applicable.

Level in pay matrix.	Whether selection or non-selection.
(4)	(5)
Level-14 (Rs. 144200-218200/-).	Not applicable.

Age limit for direct recruitment.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether Age and Educational Qualification prescribed for Direct Recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grade from which promotion/deputation/absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Deputation (including Short-term contract) for three years or may be extended up to seven years by the Khuda Bakhsh Oriental Public Library Board with the approval of Ministry of Culture, Government of India.	Deputation (Including Short-Term Contract) from amongst: Officers of the Central or State Government or Union territories or Statutory or Autonomous organisations funded by Central or State Government, Universities and recognised research institutions- (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; (ii) with Two years' service in the grade rendered after appointment there on regular basis in post of Level- 13A (Rs. 131100-216600) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment there on regular basis in post in Level-13 (Rs. 123100-215900) or equivalent in the parent cadre or department.

		<p>(B) possessing the qualifications and experience as under:</p> <p>(a) Essential Qualification:</p> <p>(i) a renowned scholar in Arabic or Persian or Urdu or Hindi or Sanskrit or Islamic Studies or Medieval Indian History;</p> <p>(ii) Master Degree in any of the above disciplines from a recognised university or institute;</p> <p>(iii) Having published at least 05 books or 10 Research Papers etc;</p> <p>(iv) at least Five years' experience of teaching or research or administration in a comparable Library, University or other Teaching/Research Institution;</p> <p>(b) Desirable Qualification:</p> <p>(i) Degree or Diploma in Library Science or Library and Information Science, Computer Science, Data Processing etc. from a recognised University or institute;</p> <p>(ii) Degree of Ph.D. in any of the subjects as mentioned under Essential Qualification above.</p> <p>Note:-</p> <p>(i) The age limit for deputation (including short term contract) shall not exceed fifty six years.</p> <p>(ii) The crucial date for determining the age limit shall be the normal closing date for receipt of application from the candidates in India.</p> <p>(iii) The maximum permissible age up to which the incumbent may hold the post of Director, Khuda Bakhsh Oriental Public Library will be sixty years.</p> <p>(iv) The qualification or experience may be relaxed on the basis of recommendation of the Selection Committee.</p> <p>(v) The period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall not ordinarily exceed Seven years.</p>
--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p><u>Selection Committee:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman of the Board or in his absence his nominee; 2. A nominee of the Government of India; 3. A nominee of the Government of Bihar; 4. A member nominated by the Board from amongst themselves; 5. An expert on the subject nominated by the Board; and 6. Director or in his absence the Deputy Director of the library. 	Not applicable.

[F. No. L-19/1/2023-LIB]

MUGDHA SINHA, Jt. Secy.